

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 32] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 9—अगस्त 15, 2014 (श्रावन 18, 1936)

No. 32] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 9—AUGUST 15, 2014 (SRAVANA 18, 1936)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 1

[PART III—SECTION 1]

[उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के
संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं]

[Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, the Union Public
Service Commission, the Indian Railways and by Attached and Subordinate Offices of the
Government of India]

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो

नई दिल्ली — 110003, दिनांक 18 जून 2014

सं. डीपीपर्स. I2014/0065/3/72/2012(पीटी)----श्री जी. वेंकटा स्वामी गौड़, वरिष्ठ लोक अभियोजक, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, एसीबी, बेंगलूर ने अधिवर्षिता की आयु पूरी होने पर, दिनांक 31.05.2014 के अपराहन से वरिष्ठ लोक अभियोजक, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के पद का कार्यभार त्याग दिया है।

दीपिका सूरी
उप-निदेशक (कार्मिक)

गृह मंत्रालय

महानिदेशालय, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

नई दिल्ली-110 003, दिनांक 10 जुलाई 2014

संख्या-पी. सात-1/2014-मंत्रालयिक—सुबेदार मेजर(मंत्रालयिक) से सहायक कमाण्डेन्ट(मंत्रालयिक) के पद पर पदोन्नति होने के फलस्वरूप निम्नलिखित सुबेदार मेजर(मंत्रालयिक) ने प्रत्येक के सामने दर्शाए गए कार्यालयों में दर्शाई गई तिथियों को सहायक कमाण्डेन्ट(मंत्रालयिक) का कार्यभार ग्रहण कर लिया है :-

क्र० स०	अधिकारी का नाम	कार्यालय जहाँ कार्यभार संभाला	कार्यग्रहण करने की तिथि
01	श्री पवन कुमार शर्मा , सहायक कमाण्डेन्ट(मंत्रालयिक), ईरला-9892	कार्यालय कमाण्डेन्ट, 06 बटालियन, एन0डी0आर0एफ0, गांधीनगर, गुजरात ।	16/12/2013(पूर्वा)
02	श्री पनीर सेल्वम पी0, सहायक कमाण्डेन्ट(मंत्रालयिक), ईरला-9897	कार्यालय पुलिस उप महानिरीक्षक, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, पुने ।	12/03/2014(पूर्वा)
03	श्री सूबे सिंह, सहायक कमाण्डेन्ट(मंत्रालयिक), ईरला-9878	कार्यालय पुलिस उप महानिरीक्षक, ग्रुप केन्द्र, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, बनतलाब ।	18/09/2013 (पूर्वा)
04	श्री कृष्णा कुमारी कार्की, सहायक कमाण्डेन्ट(मंत्रालयिक), ईरला-9831	कार्यालय पुलिस उप महानिरीक्षक, ग्रुप केन्द्र, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, गुडगांव ।	16/5/2013 (पूर्वा)
05	श्री सिरेश कुमार ए0आर0, सहायक कमाण्डेन्ट(मंत्रालयिक), ईरला-9835	कार्यालय पुलिस उप महानिरीक्षक, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, पुने ।	17/06/2013 (पूर्वा)
06	श्री एम0 रहमान, सहायक कमाण्डेन्ट(मंत्रालयिक), ईरला-9898	कार्यालय पुलिस उप महानिरीक्षक, ग्रुप केन्द्र, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, भुवनेश्वर ।	10/04/2014 (पूर्वा)
07	श्री जी0 अरुणाचलम, सहायक कमाण्डेन्ट(मंत्रालयिक), ईरला-9829	कार्यालय पुलिस उप महानिरीक्षक, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, रायपुर ।	24/06/2013 (पूर्वा)
08	श्री टी0जे0 जोसफ, सहायक कमाण्डेन्ट(मंत्रालयिक) ईरला-9877	कार्यालय पुलिस महानिरीक्षक, उडीसा सेक्टर, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, भुवनेश्वर ।	09/09/2013(पूर्वा)

आर0आर0 दत्ता
पुलिस उप महानिरीक्षक (संगठन)

दिनांक 11 जुलाई 2014

संख्या-पी. सात-1/2014-मंत्रालयिक—सुबेदार मेजर(मंत्रालयिक) से सहायक कमाण्डेन्ट(मंत्रालयिक) के पद पर पदोन्नति होने के फलस्वरूप निम्नलिखित सुबेदार मेजर(मंत्रालयिक) ने प्रत्येक के सामने दर्शाए गए कार्यालयों में दर्शाई गई तिथियों को सहायक कमाण्डेन्ट(मंत्रालयिक) का कार्यभार ग्रहण कर लिया है :-

क्र० स०	अधिकारी का नाम	कार्यालय जहाँ कार्यभार संभाला	कार्यग्रहण करने की तिथि
01	श्री विजय कुमार सिंह, सहायक कमाण्डेन्ट(मंत्रालयिक), ईरला-9879	कार्यालय पुलिस महानिरीक्षक, मणिपुर एवं नागालैण्ड सेक्टर, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, इम्फाल ।	02/09/2013(पूर्वा)
02	श्री आर0 नारायण राव, सहायक कमाण्डेन्ट(मंत्रालयिक), ईरला-9833	कार्यालय पुलिस उप महानिरीक्षक, ग्रुप केन्द्र, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, तरालु ।	26/06/2013(पूर्वा)

आर0आर0 दत्ता
पुलिस उप महानिरीक्षक (संगठन)

नई दिल्ली—110003, दिनांक 14 जुलाई 2014

सं : ओ.दो-5005/2014-कार्मिक (डीए0 3)—खेद सहित अधिसूचित किया जाता है कि कमाण्डेन्ट 7वी वाहिनी के श्री हीरा कुमार झा, द्वितीय-कमान-अधिकारी (ईरला : 5005) के सिर पर गोली लगने के कारण दिनांक 04/07/2014 को तकरीबन 0515 बजे मृत्यु हो गई है। तदनुसार, उनका नाम इस बल की नफरी से दिनांक 04/07/2014 (अपराहन्) से निकाला जाता है।

एम0सी0 पंवार
पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक)

दिनांक 21 जुलाई 2014

संख्या: ओ.दो. 5361/2014-कार्मिक.डी.ए.-4—सक्षम प्राधिकारी द्वारा सरकारी सेवा से स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति नोटिस के स्वीकार हो जाने के फलस्वरूप श्री बी. सरवनन, उप कमाण्डेन्ट (इरला-5361), केन्द्रीय प्रशिक्षण महाविद्यालय, केरिपुबल, कोयम्बतूर, (तमिलनाडू) ने दिनांक 16/07/2014 (पूर्वाह्न) से अपना पदभार त्याग दिया है। तदनुसार, उनका नाम इस बल की नफरी से दिनांक 16/07/2014 (पूर्वाह्न) से निकाला जाता है।

मूल चन्द पंवार
पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक)

परमाणु ऊर्जा विभाग

मुंबई-400001, दिनांक 25 जुलाई 2014

सं. 1/6(4)/2010-पावर/9553--राष्ट्रपति, इस विभाग के निम्नलिखित वैज्ञानिक अधिकारियों/इंजीनियरों, जो न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि. (एनपीसीआईएल) में स्थायी प्रतिनियुक्ति पर हैं, को दिनांक 01.07.2012 एवं 01.07.2013 से प्रभावी रूप में अगले आदेश होने तक स्थानापन्न आधार पर उनके सामने उल्लिखित ग्रेड एवं निम्न विवरण के अनुसार नियुक्त करते हैं:--

क्र.सं.	नाम (सर्वश्री)	वर्तमान ग्रेड	पदोन्नत ग्रेड	वेतन बैंड (रु.)	ग्रेड वेतन (रु.)	इकाई
1.	एस. पी. श्रीवास्तव	वैज्ञानिक अधिकारी/डी	वैज्ञानिक अधिकारी/ई	15600-39100	7600	केएपीपी-3 एवं 4
2.	मार्कडेय मिश्रा	वैज्ञानिक अधिकारी/डी	वैज्ञानिक अधिकारी/ई	15600-39100	7600	एनएपीएस
3.	आर डी जयसिंघानी	वैज्ञानिक अधिकारी/डी	वैज्ञानिक अधिकारी/ई	15600-39100	7600	टीएपीएस 1 एवं 2
4.	पाटिल वी. आर.	वैज्ञानिक अधिकारी/डी	वैज्ञानिक अधिकारी/ई	15600-39100	7600	एनपीसीआईएल मुख्यालय

2. उपरोक्त में से क्रम सं. 1 के अधिकारी ने दिनांक 01.07.2012 (पूर्वाह्न) से प्रभावी रूप में और क्रम सं. 2, 3 एवं 4 के अधिकारियों ने दिनांक 01.07.2013 (पूर्वाह्न) से प्रभावी रूप में अपने द्वारा धारित निचले पद का कार्यभार त्याग दिया है।

ए. सुकुमारन
अवर सचिव

विकिरण एवं आईसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड

नवी मुंबई-400 703, दिनांक 16 जुलाई 2014

सं: ब्रिट/9/18/2013/03--मुख्य कार्यकारी, विकिरण एवं आइसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड श्री रामकृष्ण कोटियन, आशुलिपिक ग्रेड-I को दिनांक 18 जून 2014 के पूर्वाहन से रु. 9300-34800 के वेतन बैंड तथा रु. 4800 के ग्रेड वेतन सहित निजी सचिव (गैर सचिवालयीन) के पद पर, अगले आदेशों तक, अस्थायी रूप से नियुक्त करते हैं।

जी. आर. पिल्लै
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

सं: ब्रिट/9/18/2013/04---मुख्य कार्यकारी, विकिरण एवं आइसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड, नवी मुंबई, श्रीमती करुणा प्रकाश लोखंडे, सहायक, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, ट्रॉबे, मुंबई - 400085 को विकिरण एवं आइसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड, परमाणु ऊर्जा विभाग, नवी मुंबई-400703 में दिनांक 01 जुलाई 2014 के पूर्वाहन से रु. 9300-34800 के वेतन बैंड तथा रु. 4800/- के ग्रेड वेतन सहित सहायक कार्मिक अधिकारी के पद पर, अगले आदेशों तक, अस्थायी रूप से नियुक्त करते हैं।

जी. आर. पिल्लै
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

भारी पानी बोर्ड

मुंबई-400 094, दिनांक 4 जुलाई 2014

सं. भापाबो/ भर्ती/ 4(14)/2013/3325---राष्ट्रपति, भारी पानी बोर्ड (केन्द्रीय कार्यालय) के श्री सुब्बारत्नम जयचंद्रन, वैज्ञानिक अधिकारी/अभियंता ग्रेड 'ई' वेतन बैंड रु. 15600-39100 + ग्रेड वेतन रु. 7600/- को 01 जुलाई, 2013 के पूर्वाहन से उसी कार्यालय में वैज्ञानिक अधिकारी/अभियंता ग्रेड 'एफ' वेतन बैंड रु. 37400-67000 + ग्रेड वेतन रु. 8700/- में नियुक्त करते हैं।

वी.एम. थॉमस
मुख्य प्रशासन अधिकारी

राजा रामन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केन्द्र

इन्दौर, दिनांक 22 जुलाई 2014

सं. आरआरकेट/प्रशा./2013/म-805/785---भारत के राष्ट्रपति निम्नलिखित वैज्ञानिक अधिकारी/सी (पीबी-3 रुपये 15,600---39,100/- + ग्रेड वेतन रुपये 5,400/-) को दिनांक 01.07.2013 (पूर्वाह्न) से वैज्ञानिक अधिकारी/डी (पीबी-3, रुपये 15,600---39,100/- + ग्रेड वेतन रुपये 6,600/-) के पद पर राजा रामन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केन्द्र, इंदौर में आगामी आदेश होने तक नियुक्त करते हैं:--

क्र. सं.	सं.सं.सं.	नाम	प्रभाग
1.	1014	श्री सुनील कुमार शर्मा	एसएसएलडी
2.	1029	श्री मनोज कुमार	एसएसएलडी
3.	1271	श्री अशोक कुमार	एमटीडी

क्र. सं.	सं.सं.सं.	नाम	प्रभाग
4.	1353	श्री दीपक कुमार वत्स	आईओएपीडीडी
5.	1783	श्री राहुल जैन	एसीबीडीडी
6.	1786	श्री कुंवर आदर्श प्रताप सिंह	पीएचपीएसएस
7.	1788	कु मधुरिमता बराल	आईएसयूडी
8.	1790	श्री जगदीश चन्द्र	एमएएसडी
9.	1792	श्री सार्थक गुप्ता	सीडी
10.	1793	श्री देवाशीष सिंहामहापात्र	आईओएपीडीडी
11.	1832	कु. रंजना राठौर	एलपीडी
12.	1833	कु. रिकी ढींगरा	एमएएसडी
13.	1836	श्री पंकज कुमार कुशवाहा	एलबीआईडी

बी. के. जेना
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

सं. आरआरकेट/प्रशा/भ-707/791—भारत के राष्ट्रपति श्री अमित रणगिरे को दिनांक 21-07-2014 (पूर्वाह्न) से तकनीकी अधिकारी/सी के पद पर वेतनबैंड-3, रु.15600-39100 तथा ग्रेड वेतन रु. 5400/- में राजा रामन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केंद्र, इंदौर में आगामी आदेश होने तक नियुक्त करते हैं।

बी. के. जेना
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

सं. आरआरकेट/प्रशा/2013/भ-805/793—भारत के राष्ट्रपति निम्नलिखित वैज्ञानिक अधिकारी/डी (पीबी:3, रु. 15,600-39,100/- + ग्रेड वेतन रु. 6,600/-) को दिनांक 01.07.2013 (पूर्वाह्न) से वैज्ञानिक अधिकारी/ई (पीबी:3, रु. 15,600-39,100/- + ग्रेड वेतन रु. 7,600/-) के पद पर राजा रामन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केंद्र, इंदौर में आगामी आदेश होने तक नियुक्त करते हैं:-

क्र.सं.	सं.सं.सं.	नाम	प्रभाग
1	426	श्री राम शिरोमन	यूएचवीटीएस
2	508	श्री प्रदीप कुमार मिश्र	सीएंडएसडी
3	794	श्री सुरेन्द्र सिंह	एलपीएस
4	795	श्री आर. सूनंदर	एसएसएलडी
5	841	श्री सुरेश चन्द्र विश्वकर्मा	एसएसएलडी
6	866	श्री बी. गौरी शंकर	एसीडीएफएस
7	1065	श्री कवीन्द्र कुमार बाछिल	सीडी
8	1569	डॉ. जाहिद बेग मिर्जा	आरएमसी
9	1613	श्री अनुज उपाध्याय	आईएसयूडी
10	1620	श्री गोविन्द कुमार मिश्रा	एलएसईएस
11	1633	कु. अस्मिता मलिक	एलबीआईडी
12	1643	श्री साकेत कुमार गुप्ता	एमएएसडी
13	1645	श्री राजेश कुमार पाटीदार	एलपीडी

क्र.सं.	सं.सं.सं.	नाम	प्रभाग
14	1670	श्री सलाहुद्दीन खान	एलपीएस
15	1674	श्री प्रशान्त कुमार जाना	एमएसडी
16	1707	श्री राहुल गौड़	एमएसडी
17	1708	श्री रिकी उपाध्याय	आरएसडी
18	1714	श्री अवनीश ओझा	एसीबीडी
19	1808	डॉ. एल.एस. शरत चन्द्र	एमएसडी
20	1838	श्री विवेक नेमा	सीसीडीएस

बी.के. जेना

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

सं. आरआरकेट/प्रशा/2013/भ-805/794—भारत के राष्ट्रपति निम्नलिखित वैज्ञानिक अधिकारी/डी (पीबी:3, रु. 15,600—39,100/- + ग्रेड वेतन रु. 6,600/-) को उनके नाम के सामने उल्लिखित दिनांक की पूर्वाह्न से पदोन्नति पर वैज्ञानिक अधिकारी/ई (पीबी:3 रु.15,600—39,100/- + ग्रेड वेतन रुपये 7,600/-) के पद पर राजा रामन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केंद्र, इंदौर में आगामी आदेश होने तक नियुक्त करते हैं:-

क्र.सं.	सं.सं.सं.	नाम	दिनांक	प्रभाग
1	1727	डॉ. (श्रीमती) पूजा गुप्ता	02.07.2013	आईएसयूडी
2	1772	डॉ. (श्रीमती) रश्मि श्रीवास्तव	23.10.2013	एलबीआईडी

बी.के. जेना

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

कम्पनी कार्य मंत्रालय

(कम्पनी कार्य विभाग)

कम्पनी अधिनियम 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

नई दिल्ली-110019, दिनांक 23 जुलाई 2014

सं. कर/दिल्ली/560(5)/एफटीई-2011/5589—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्न कम्पनियों के नाम, कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिए गये हैं और उक्त कम्पनियां विघटित कर दी गई हैं।

क्र० सं०	सी.आई. एन.	कम्पनी नाम
1.	U31101DL1997PTC086823	ए.सी. जनरेटर सेल्स एण्ड सर्विस प्राईवेट लि०
2.	U74140DL2007PTC163648	आदीविदया प्रयुडयोगिकी प्राईवेट लि०
3.	U70100HR2010PTC041265	आरती बिल्डटेक प्राईवेट लि०
4.	U74899DL2003PTC118387	ए.बी.एन.सर्जिकल प्राईवेट लि०
5.	U74899DL1989PTC037862	एकॉड इन्टरप्राइजेज प्राईवेट लि०
6.	U51101DL2007PTC166201	ए.सी.आई. मार्केटिंग सोल्यूशन्स प्राईवेट लि०

क्र० सं०	सी.आई. एन.	कम्पनी नाम
7.	U72300DL2008PTC183718	एकॉन एनालाएटिक्स प्राईवेट लि०
8.	U24100DL2010FTC207029	एक्यूटी फारमासियूटिकलस् प्राईवेट लि०
9.	U18101DL2005ITC133921	आक्यूमैन गारमेन्टस् प्राईवेट लि०
10.	U33111DL2010TC200241	एडवांस लाइफ साइंस टेक्नोलॉजीस् प्राईवेट लि०
11.	U25209DL1990PTC077956	एडवांस वैक्यूम फ्लैस्क इंडस्ट्रीज प्राईवेट लि०
12.	U8030DL2996PTC151860	अमेरिकन स्कूल ऑफ एविएशंसन (इंडिया) प्राईवेट लि०
13.	U51909DL2002PTC117473	अनाक्सू ओवरसीज प्राईवेट लि०
14.	U72300DL2008PTC179806	एपैस इनफोटेक प्राईवेट लि०
15.	U45400DL2008PTC184533	ऐराबलास इनफ्रास्ट्रक्चर प्राईवेट लि०
16.	U00063DL2005PTC141062	ऐरो डिस्ट्रीब्यूसन (वेस्ट बंगाल) प्राईवेट लि०
17.	U29299DL1996PTC077037	ऐसीटेक इंजीनियरिंग कम्पनी प्राईवेट लि०
18.	U24232DL2008PTC180212	अस्पीरा मार्केटिंग कम्पनी प्राईवेट लि०
19.	U63023DL2008PTC180713	औरा कन्टेनर सर्विसेज प्राईवेट लि०
20.	U45204DL2010PTC204621	अयाको इनफ्रास्ट्रक्चर प्राईवेट लि०
21.	U74140DL2005PTC140653	बैनयान टेक्नोलॉजी कन्सलटेन्टस् प्राईवेट लि०
22.	U32109DL1998PTC095896	बवेजा सिस्टमस् प्राईवेट लि०
23.	U55101DL2011PTC215153	बिच एन बूड होटल्स एण्ड रिसोर्ट प्राईवेट लि०
24.	U01400DL2012PTC240207	बेस्ट सीजनस् ऐग्रो प्राईवेट लि०
25.	U67120DL1997PTC086066	भागीरथी केपिनफिनलीज प्राईवेट लि०
26.	U5299DL2012PTC236039	बाय टू रेड नेटवर्क प्राईवेट लि०
27.	U31300DL200PTC157306	कैलिब्री केबल्स प्राईवेट लि०
28.	U74900DL2006PTC148631	केयर फस्ट टैलेंट प्राईवेट लि०
29.	U31200DL1987PTC029102	क्लासिक सिस्टम प्राईवेट लि०
30.	U72900DL2011PTC214376	सीएनएम ग्राफिक्स एण्ड आई टी सर्विसेज प्राईवेट लि०
31.	U30007DL1996PTC083491	कम्प्यूटर स्पॉट (इंडिया) प्राईवेट लि०
32.	U80302DL2012PTC232301	कार्पोरेट कन्नेक्ट एजुकेशन प्राईवेट लि०
33.	U74140DL2009PTC186526	कार्पोरेट विटालिटी इंडिया प्राईवेट लि०
34.	U70109HR2012PTC047459	कोरपस रियलिटी इंडिया प्राईवेट लि०
35.	U55204DL2008SGC173413	क्रिस्टल बिजनेस वेन्चरस प्राईवेट लि०
36.	U74899DL1993PTC054765	क्यूटेक मेटल्स प्राईवेट लि०
37.	U45400DL2007PTC166806	दिपांक इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राईवेट लि०
38.	U70200DL1997PTC089849	डेसटिनेशन फेमिली इंटरटेनमेंट इंडिया प्राईवेट लि०

क्र० सं०	सी.आई. एन.	कम्पनी नाम
39.	U74900DL2008PTC184441	धाजा राम स्पाईसेस प्राईवेट लि०
40.	U74140DL2012PTC232474	एलाइट एजू सेस प्राईवेट लि०
41.	U45207DL2008PTC184355	इम्पीरियर पॉवर प्राईवेट लि०
42.	U65910DL1991PLC045270	फाइडलिटी क्रेडिट लि०
43.	U55101DL2011PTC226598	फूटारी होटलस् एण्ड रिसॉर्ट प्राईवेट लि०
44.	U74140DL2012PTC237121	फोरडी डिजाइनस् प्राईवेट लि०
45.	U24100DL2009PTC191257	फ्रन्टियस फारमाक्यूटिकलस् एण्ड केमिकल प्राईवेट लि०
46.	U31908DL2011PTC215709	फ्रस्टलूक इलेक्ट्रानिकल्स प्राईवेट लि०
47.	U35990HR2011PTC044508	फियूचर एरोनैटिकल्स प्राईवेट लि०
48.	U0143DL2012PTC239769	फियूचर इन्फ्रा एग्रो प्राईवेट लि०
49.	U74210DL2006PTC145454	जी. एजू विजीट एज कन्सलटेन्टस् प्राईवेट लि०
50.	U51109DL2012PTC235939	जीवीडब्लू फियूजन प्राईवेट लि०
51.	U72900DL2010PTC205378	जैनरिक इनफो सोलूषन प्राईवेट लि०
52.	U23109DL2011PTC216859	जैनक्स कोक प्राईवेट लि०
53.	U18101DL2005PTC135833	जैनी गारमेन्टस् प्राईवेट लि०
54.	U45200DL2007PTC157802	जीएलपी बिल्डिटेक प्राईवेट लि०
55.	U74899DL1980PTC010182	गोल्डी हीस्क फर्म प्राईवेट लि०
56.	U01403DL1995PLC064335	गोरमेट एग्रो इन्डसट्रिज लि०
57.	U55101DL2010PTC210167	ग्रेटवेल्यू होस्पिटलिटी प्राईवेट लि०
58.	U01403DL2012PTC239149	ग्रीनवे एग्रो प्राईवेट लि०
59.	U72200DL2000PTC105716	हार्मोनिक सोलूषन प्राईवेट लि०
60.	U74899DL1995PTC065878	हेलिमा इलेक्ट्रानिकल्स प्राईवेट लि०
61.	U72900DL2012PTC241665	हेपतुल्लहा कम्यूनीकेशनस् प्राईवेट लि०
62.	U34300HR1988PTC030240	हाई मेक इंजीनियरिंग प्राईवेट लि०
63.	U22200DL2010PTC201211	हितासी निधी इम्पेक्स प्राईवेट लि०
64.	U18101DL2004PTC128723	आई जी सी गारमेन्टस् प्राईवेट लि०
65.	U70109DL2012PTC241608	आईसीएपी ग्लोबल प्राईवेट लि०
66.	U45400DL2008PTC172472	आईमोस्ट सोलूषनस् प्राईवेट लि०
67.	U45400DL2012PTC244125	इम्पीरिया इन्फ्रास्टेट प्राईवेट लि०
68.	U40108DL2010PTC210981	इनडोरी रिनेबेवल इनर्जी प्राईवेट लि०
69.	U74140DL2010PTC199642	इन्सपेस फर्निशिंग प्राईवेट लि०
70.	U45200DL2006PTC153004	जगन इन्फ्राबिल्ड प्राईवेट लि०

क्र० सं०	सी.आई. एन.	कम्पनी नाम
71.	U65992DL2003PTC120898	जय गितेष चिटस् प्राईवेट लि०
72.	U74899DL2005PTC143243	जैन ब्रदर्स बिल्डकोम प्राईवेट लि०
73.	U74999DL2011PTC225476	जेएनएम बिजनेस प्राईवेट लि०
74.	U74140DL2011PTC219848	जेवीएम एच आर सर्विसेज प्राईवेट लि०
75.	U74140DL2011PTC219848	जेवीएम एच आर सर्विसेज प्राईवेट लि०
76.	U51909DL1995PTC064960	के.एस. फूड एण्ड ट्रेड लिंक्स प्राईवेट लि०
77.	U70102DL2013PTC260932	कापतारू कारपोरेट हाऊसिंग प्राईवेट लि०
78.	U85191DL2008PTC186131	केनन हेल्थकेयर प्राईवेट लि०
79.	U72900DL2001PTC112426	केमसिबो इन्फोसिटी प्राईवेट लि०
80.	U17200DL2010PTC203512	केम्प कोरसेट प्राईवेट लि०
81.	U17200DL2010PTC203512	केम्प कोरसेट प्राईवेट लि०
82.	U65191DL2012PLC239836	केएचएल इनबेस्टमेंट लि.
83.	U45400DL2007PTC165175	कोलर कोनसेप्ट रियलटूरस् इंडिया प्राईवेट लि०
84.	U74999DL2009PTC191454	कोयो लिफ्ट सिस्टम इंडिया प्राईवेट लि०
85.	U63013DL2006PTC147944	लिओ लोड क्रसर प्राईवेट लि०
86.	U74140DL2012PTC237568	लाइफलाइन एगोटेक प्राईवेट लि०
87.	U74140DL2008PTC183439	लोरेन्ट ट्रेडिंग सर्विसेज प्राईवेट लि०
88.	U70102DL2013PTC258757	एम.ए-आर.पी रियलटूर प्राईवेट लि०
89.	U70109DL2013PTC258708	एम.आर. होम डेकर प्राईवेट लि०
90.	U70109DL2010PTC210522	महानिधि डेवलपर्स प्राईवेट लि०
91.	U51103DL2012PTC232053	मेडन इम्पेक्स प्राईवेट लि०
92.	U70102DL2013PTC259602	मानी रत्तन रियलटूरस् प्राईवेट लि०
93.	U40102DL2010PTC210982	मारकांडा रिनेबेवल इर्नजी प्राईवेट लि०
94.	U74899DL1987PTC027341	मेकप्लास्ट इंजीनियर्स प्राईवेट लि०
95.	U74899DL1991PTC046709	मरकरी टेलीकमनिकेशन प्राईवेट लि०
96.	U74900DL2009PTC194894	मेरिट पैकजिंग प्राईवेट लि०
97.	U70102DL2013PTC256845	मुरलीधर कोर्पोरेट रिसोर्ट प्राईवेट लि०
98.	U70102DL2013PTC255901	मुरलीधर टारुन प्लेनर्स प्राईवेट लि०
99.	U74920DL1998PTC094128	नारा प्लेसमेंट प्राईवेट लि०
100.	U63090DL2004PTC127969	एनसीपीएल लॉजिस्टिक प्राईवेट लि०
101.	U74140DL2011PLC225012	नेनोटेच मोबाइल लि०
102.	U93000DL2011PTC216636	नियोर्थ कन्सलटेंट प्राईवेट लि०

क्र० सं०	सी.आई. एन.	कम्पनी नाम
103.	U70200DL2010PTC210329	नेझा रियलटूरर्स प्राईवेट लि०
104.	U01130DL2008PTC184480	निपटी एग्रा फूडस् प्राईवेट लि०
105.	U70109DL2010PTC210436	राइटीप्रिया डेबलपर्स प्राईवेट लि०
106.	U52599DL2009PTC188247	नियूगा बेस्ट थरमोथैरेपी सेन्टर प्राईवेट लि०
107.	U52599DL2009PTC188247	नियूगा बेस्ट थरमोथैरेपी सेन्टर प्राईवेट लि०
108.	U51909DL2004PTC124534	पी.डी. इग्जिम इंडिया प्राईवेट लि०
109.	U27201DL1997PTC088474	पाम टेलीकोम प्राईवेट लि०
110.	U15420DL1973PLC006819	परमजीत सूगर फैक्ट्री प्राईवेट लि०
111.	U70109DL2010PTC210438	परमज्योति रियलटेक प्राईवेट लि०
112.	U74899DL1995PLC074188	पर्ल सीडस् लि०
113.	U65923DL2006PTC151431	पर्सियूस इंडिया एडवाइजर प्राईवेट लि०
114.	U15541DL2005PTC139390	पिनेकल बेवर्जस प्राईवेट लि०
115.	U74140HR2011PTC043470	पाइवेट रिटेल सोलूषन प्राईवेट लि०
116.	U74899DL2000PTC108673	प्रहलाद कन्वेन्सिंग प्राईवेट लि०
117.	U45201DL2006PTC145557	प्रषत बिल्डर्स एण्ड एस्टेट डेबलपर्स प्राईवेट लि०
118.	U33111DL2004PTC130482	प्रविला मेडीसर्जिकल प्राईवेट लि०
119.	U24233DL2007PTC165238	प्रसिजन हर्बलस् प्राईवेट लि०
120.	U01407DL2012PTC241140	प्राइमटाइम एग्रो प्राईवेट लि०
121.	U93030DL2010PTC199633	प्रीसा कल्चर एण्ड एजूकेशन प्राईवेट लि०
122.	U40108DL2013PTC248066	प्रो ग्रीनटेक सोलूषन प्राईवेट लि०
123.	U24233DL2008PTC184851	प्योर सोर्स एसनषियल आर्यल एण्ड अरोमा केमिकल प्राईवेट लि०
124.	U74140DL2010PTC204253	कौडरीलियन सोलूषन एण्ड सर्विसेज प्राईवेट लि०
125.	U45402DL2008PTC183098	क्यूपिड डेकर प्राईवेट लि०
126.	U14200DL2009PTC189318	रेक् स्टोनस् एण्ड ग्रेनाइट प्राईवेट लि०
127.	U72900DL2009PTC191564	रेजाडो ईसर्विसेज प्राईवेट लि०
128.	U67120DL1991PLC043806	आरबीजी इनबेस्टमेंट एण्ड फाईनेन्स लि०
129.	U45200DL2011PTC216329	रिइन्स्टेट कन्सट्रक्शन कम्पनी प्राईवेट लि०
130.	U0143DL2012PTC239625	राईटलाईन एग्रीकलचर प्राईवेट लि०
131.	U74900DL2011PTC216717	रॉक्वूड होस्पिटैलिटी एसोसियट प्राईवेट लि०
132.	U55101DL2005PTC141336	रॉसवूड होटल्स प्राईवेट लि०
133.	U24234DL2005PTC138335	राउस होमियो डिस्ट्रीब्यून्स प्राईवेट लि०
134.	U74991DL2007PTC165046	रॉयलसर्ट सर्टिफिकेशन प्राईवेट लि०

क्र० सं०	सी.आई. एन.	कम्पनी नाम
135.	U51909DL2008PTC176508	रुसगरो इन्टर-टरेड प्राईवेट लि०
136.	U74899DL1984PTC018558	साहिब इन्टरीयर्स प्राईवेट लि०
137.	U28113DL2009PTC1888864	सेन्को मेटल्स प्राईवेट लि०
138.	U73200DL2010PTC200596	सेटकॉन इण्डिया प्राईवेट लि०
139.	U67120DL1996PLC081903	एस.बी.इ.सी. इन्वेस्टमेन्ट प्राईवेट लि०
140.	U70102DL2012PTC239216	षान्ति डेवलॉपैल प्राईवेट लि०
141.	U74899DL1995PTC072204	षान्ति यार्न्स प्राईवेट लि०
142.	U29197DL2004PTC128757	पैली फिल्टरेशन सिस्टम्स प्राईवेट लि०
143.	U45204DL2011PTC219953	श्री षतगुरू इन्क्रटेक प्राईवेट लि०
144.	U45200DL2008PTC178842	श्रीजी नेस्टबिल्ड डेवलॉप्स प्राईवेट लि०
145.	U51101DL2010PTC200250	श्री षिव इलेक्ट्रीकल्स एण्ड हार्डवेयर प्राईवेट लि०
146.	U65992HR1999PTC034398	षुभानिया चीट फन्ड प्राईवेट लि०
147.	U18101DL2008PTC182315	सर करियेशन प्राईवेट लि०
148.	U51909DL2005PTC133644	स्काईअप इम्पेक्स प्राईवेट लि०
149.	U17120DL2008PTC179794	स्काइलार्क एपेरल्स प्राईवेट लि०
150.	U74900DL2009PTC188615	स्मार्ट फैशन किन्नाडम प्राईवेट लि०
151.	U72900DL2003PTC122474	स्मार्ट लाईब्रेरी नेटवर्क प्राईवेट लि०
152.	U36900DL2011PTC225781	एस.एम.आर.के. मेन्यूफेक्चर प्राईवेट लि०
153.	U41000DL2010PTC197620	सो प्योर वाटर (इण्डिया) प्राईवेट लि०
154.	U92490DL1989PLC037823	एस.आर.एफ. इम्पॉयज वेलफेयर कम्पनी लि०
155.	U74999DL2002PTC114809	सूमित्री बीमा डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राईवेट लि०
156.	U40300HR2013PTC042737	सनबॉरन एनर्जी एण्ड प्रोजेक्ट्स प्राईवेट लि०
157.	U40106HR2013PTC049746	सनबॉरन एनर्जी पॉवर डेवलॉपमेन्ट प्राईवेट लि०
158.	U40106HR2013PTC049755	सनबॉरन एनर्जी पॉवरजैन प्राईवेट लि०
159.	U40300HR2013PTC049974	सनबॉरन एनर्जी सोलर पॉवर प्राईवेट लि०
160.	U74899DL1986PTC024224	सूपर कार्गो इण्डिया प्राईवेट लि०
161.	U64120DL1998PTC091782	सूपर काइनेटिक कोरियर प्राईवेट लि०
162.	U74900DL2008PTC179734	सूपरस वेडिंग एण्ड इवेन्ट्स प्राईवेट लि०
163.	U40101DL2010PTC203559	सूर्या उत्तर हाईड्रो पॉवर प्राईवेट लि०
164.	U31200DL1988PTC032323	सूविधा होम एपलाइन्सिस प्राईवेट लि०
165.	U74900HR2010PTC040120	सिन्डिकेट होम्स प्राईवेट लि०
166.	U45400DL2008PTC174645	टॉरस बिल्डहोम प्राईवेट लि०
167.	U85100DL2012PTC234654	टेकहेल्थ केयर सोल्यूसन्स प्राईवेट लि०
168.	U74999DL2011PTC229514	टूमारोस कम्पनी जी.जी.बी.एस. बिजनेस कन्सलटेन्सी प्राईवेट लि०

क्र० सं०	सी.आई. एन.	कम्पनी नाम
169.	U63040HR2010PTC040934	यूनीटेक टूर एण्ड ट्रेवल्स प्राईवेट लि०
170.	U80301HR2012PTC045898	यूनीवर्सल स्टेडीज प्राईवेट लि०
171.	U45400DL2008PTC180187	यू.वी.ए. प्रमोटर्स प्राईवेट लि०
172.	U74140DL2009PTC186417	वेल्यू चैन कन्सल्टिंग प्राईवेट लि०
173.	U22300DL2008PTC184850	वेराईटी मिडिया एण्ड पोडकैन्स प्राईवेट लि०
174.	U74899DL1984PTC017773	वेसगा सेल्स प्राईवेट लि०
175.	U27202DL1987PTC027505	वीमसा पाईप एण्ड टयूब्स प्राईवेट लि०
176.	U65202DL2003PTC119549	वीनसम मिडिया कॉम्यूनिकेयन्स प्राईवेट लि०
177.	U01114DL1982PTC013303	वीराट इन्टरप्राजेज प्राईवेट लि०
178.	U23201DL2010PTC205881	विस्कॉन पेटरो इण्डिया प्राईवेट लि०
179.	U45200DL2007PTC157803	वीसटा बिल्डटेक प्राईवेट लि०
180.	U74900DL2007PTC163198	वीसटा मेरिन शिप बरोर्स प्राईवेट लि०
181.	U70101DL2010PTC210449	वीतीम डवलॉप्स प्राईवेट लि०
182.	U80900HR2011PTC042112	विवेकानन्द एडूकॉम प्राईवेट लि०
183.	U74140DL2011PTC220343	वकार्या कॉरपोरेट सोल्यूशन्स प्राईवेट लि०
184.	U92100DL2009PTC186735	वी.एम. फाइनल कट एन्टरटेनमेन्ट प्राईवेट लि०
185.	U74899DL2000PLC103309	वेबटेक सोल्यूशन्स लि०
186.	U28999DL1997PLC087609	वूलमाउन्ट इन्डस्ट्रीज लि०
187.	U51220DL2013PTC247281	एक्स.एक्स.एल. ड्रिन्क्स प्राईवेट लि०
188.	U72300DL2012PTC232623	जेनके टेक्नोलोजिज प्राईवेट लि०
189.	U74140DL1999PTC099726	जिकॉम एसोसियट्स प्राईवेट लि०

पी. एल. मलिक
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 तथा निम्नलिखित कम्पनियों के मामले में

कोलकाता, दिनांक 24 जुलाई 2014

संख्या क्र.र./प०.बं०./एसएम/560/2014----कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उप धारा (5) के अनुसरण में यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित 110 कम्पनियों के नाम आज के दिन से रजिस्टर से काट दिए गये हैं तथा उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं :---

क्र० सं०	सी.आई.एन	कम्पनी का नाम
1	U26931WB2010PTC155366	सिंघानिया फ़्लैश ब्रिक्स एंड पावर्स प्राइवेट लिमिटेड
2	U74999WB2010PLC155444	एलेनोर मार्केटिंग सर्विसेस लिमिटेड

क्र० स०	सी.आई.एन	कम्पनी का नाम
3	U45400WB2010PTC155505	सनशार्डन रियलइन्फ्रा प्राइवेट लिमिटेड
4	U45400WB2010PLC156097	बीडीएम फार्मासीयूटिकल्स लिमिटेड
5	U74999WB2010PTC156282	बेता स्कैन डाइग्नोस्टिक सेंटर प्राइवेट लिमिटेड
6	U45400WB2010PTC156315	बंसल निवास प्राइवेट लिमिटेड
7	U29222WB2009PTC138829	अमृत सुधा एक्वा वॉटर टेक्नोलोजी प्राइवेट लिमिटेड
8	U01400WB2010PTC152358	वंदिता एग्रो फूड्स प्राइवेट लिमिटेड
9	U74999WB2010PTC153967	धनलक्ष्मी मल्टिसर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
10	U85110WB2010PTC156223	अपसरा आइ होस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड
11	U01134WB2010PTC154909	आदर्श मॉडर्न राइस मिल प्राइवेट लिमिटेड
12	U70109WB2010PLC155751	मदर ग्रीनरी प्रोजेक्ट डेवलपर लिमिटेड
13	U51909WB2010PTC156052	मानव बंधन मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
14	U45400WB2010PLC153476	एसडीए क्रिएटिव रियल इस्टेट लिमिटेड
15	U70102WB2010PLC153528	प्रगति भूमि इंडिया लिमिटेड
16	U51909WB2010PTC153534	ब्रिजभूमि ट्रेडलिंग प्राइवेट लिमिटेड
17	U74999WB2010PTC153649	ट्रांसफॉर्म कंसलटेंसी सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
18	U74999WB2010PTC153708	फ्युचर सॉल्व ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड
19	U45400WB2010PLC153925	लिबर्टी इंडिया इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड
20	U70109WB2010PLC154421	भविष्य आर्य रियल इस्टेट्स (इंडिया) लिमिटेड
21	U85100WB2010PTC154435	करुणा मेमोरियल हैल्थ एंड एडुकेशन प्राइवेट लिमिटेड
22	U52390WB2010PTC154506	गजराज डीलमार्क प्राइवेट लिमिटेड
23	U51909WB2010PTC154546	मन्दाकिनी डीलर प्राइवेट लिमिटेड
24	U51909WB2010PTC154582	बुनियाद ट्रेडलिंग्स प्राइवेट लिमिटेड
25	U70102WB2010PTC154625	इनटाइम हार्डवेयर प्राइवेट लिमिटेड
26	U28999WB2010PTC154671	एसपीए स्टील प्राइवेट लिमिटेड
27	U74999WB2010PTC155018	सृष्टी विनट्रेड प्राइवेट लिमिटेड
28	U51909WB2010PTC155092	क्रिस्टल सरफेस मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड

क्र० स०	सी.आई.एन	कम्पनी का नाम
29	U74999WB2010PTC155108	फास्टमुव मर्चेण्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
30	U85110WB2010PTC155443	एलेनोर लाइफ केयर सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
31	U51909WB2010PTC155679	स्वेज़ ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड
32	U32109WB2010PTC155779	बैड मोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड
33	U72200WB2010PTC155987	पीडबल्यू सोफटेक प्राइवेट लिमिटेड
34	U51909WB2010PTC156197	लुकलाइन मर्केटाइल प्राइवेट लिमिटेड
35	U63090WB2010PTC156304	बीएसबी लोजीस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड
36	U93000WB2010PLC156321	फाइव स्टार सौदर्न समिति लिमिटेड
37	U70109WB2010PLC156156	धनपति इन्फ्रा इंडिया लिमिटेड
38	U17291WB2010PTC152664	चोखानी टेक्सटाइल्स प्राइवेट लिमिटेड
39	U51109WB1996PTC081216	पायोनीर ट्रकोन प्राइवेट लिमिटेड
40	U74999WB2010PTC152181	दुर्गा माता हीमघर प्राइवेट लिमिटेड
41	U52100WB2010PTC152447	धरापति ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड
42	U15122WB2010PTC152704	सुधा मिनेरल्स प्राइवेट लिमिटेड
43	U74999WB2010PTC152765	रामकृष्णा पीवीसी पाइप प्राइवेट लिमिटेड
44	U51909WB2010PTC152809	बैलफ्लावर मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
45	U34300WB2010PTC152839	बी. एन. मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड
46	U70200WB2010PTC141711	लस इंफ्राप्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
47	U13206WB2010PTC141962	लस माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड
48	U74900WB2010PTC153014	रिवेरी मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
49	U01403WB2010PTC153121	एमएसबी एग्रो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड
50	U67190WB2010PTC153333	आईडी सिक्यूरिटीज प्राइवेट लिमिटेड
51	U51909WB2010PTC153353	फरिस्ता कोमोडील प्राइवेट लिमिटेड
52	U51909WB2010PTC153112	ईस्टकोस्ट सेल्स एंड सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
53	U72900WB2010PTC153319	टीसीसी इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड
54	U74999WB2010PTC153491	स्टैंडर्ड यूनिटेक कैरियर प्राइवेट लिमिटेड

क्र० स०	सी.आई.एन	कम्पनी का नाम
55	U51909WB2010PTC153580	किंगफिशर कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड
56	U45201WB1992PTC055200	एसएम रॉयल शेरोन डेवलपर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
57	U28112WB2010PTC153924	आर. एस. के. कंटेनर फैब्रिकेटर्स प्राइवेट लिमिटेड
58	U70102WB2010PTC153961	संगीता इन्फ्रा प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड
59	U74990WB2010PTC154304	एमसीएस एड्वाइजरी सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
60	U31200WB2010PTC154464	एस्सेंट सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
61	U52100WB2010PTC154558	फरशा ट्रकॉम प्राइवेट लिमिटेड
62	U74999WB2010PTC154666	ए.एस. इवेंट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड
63	U51101WB2010PTC154718	फ्युचरमोविंग मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
64	U01403WB2010PLC155002	स्वाधीन एग्रो प्लान्ट इंडिया लिमिटेड
65	U70109WB2010PTC155392	प्लानेट रियल इस्टेट प्राइवेट लिमिटेड
66	U45400WB2010PTC155736	राइट चॉइस प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड
67	U74140WB2010PTC155749	सनबीम कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड
68	U52190WB2010PTC156073	इम्पु मार्केटिंग सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
69	U45400WB2010PLC156098	बीडीएम पावर प्रोडक्ट्स लिमिटेड
70	U52190WB2010PTC156370	आस्था डीलमार्क प्राइवेट लिमिटेड
71	U25209WB2010PTC155536	शावजी पॉलीटेक प्राइवेट लिमिटेड
72	U74999WB2010PTC155547	बूक- माइ ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड
73	U52300WB2010PTC152359	आकश लाइफ केयर प्रोडक्ट्स नेटवर्क मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
74	U74120WB2010PTC150153	राय मल्टीपर्स हीमघर प्राइवेट लिमिटेड
75	U51909WB2010PTC152428	सहर्ष कोमोट्रेड प्राइवेट लिमिटेड
76	U74900WB2010PTC152640	रेज मल्टि केयर सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
77	U45400WB2010PLC152689	नीहारिका इन्फ्राप्रॉपर्टी लिमिटेड
78	U74999WB2010PTC152776	एससीटी कॉमट्रेड प्राइवेट लिमिटेड

क्र० स०	सी.आई.एन	कम्पनी का नाम
79	U05000WB2010PTC152876	मा हरिप्रिया फिशिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
80	U01403WB2010PTC152991	जगत बन्धु राइस मिल प्राइवेट लिमिटेड
81	U51109WB1996PTC078917	तेरापन्थ ट्रेडलिक प्राइवेट लिमिटेड
82	U63040WB2010PTC152608	कुंज मल्टि टूर एंड ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड
83	U19200WB2010PLC152753	संकल्प शू प्रॉडक्शन लिमिटेड
84	U93000WB2010PTC152912	कृषनगर एडुकेशन प्राइवेट लिमिटेड
85	U51390WB2010PLC153067	पबीत्र मार्केटिंग एंड सर्विसेस लिमिटेड
86	U45400WB2010PTC153716	रियल ईस्ट कन्स्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड
87	U45200WB2010PLC154642	ब्राइट ड्रीम प्रोजेक्ट्स लिमिटेड
88	U15490WB2010PTC154904	श्री भुरामल एगो प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
89	U51909WB2010PTC154965	श्रद्धा मर्चेन्टाइल प्राइवेट लिमिटेड
90	U45400WB2010PLC156381	टेनस्टार रियल - एगो लिमिटेड
91	U52390WB2010PTC152292	गोल्ड व्यू विनट्रेड प्राइवेट लिमिटेड
92	U52390WB2010PTC152308	हनुमान डिलर्स प्राइवेट लिमिटेड
93	U51909WB2010PTC152427	एकलव्य ट्रेडविन प्राइवेट लिमिटेड
94	U51909WB2010PTC152429	वासुकी मर्चेन्टाइल प्राइवेट लिमिटेड
95	U74999WB2010PLC152752	साथी फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स लिमिटेड
96	U74999WB2010PTC152790	गोल्डेन फ्लावर कंसलटेंसी प्राइवेट लिमिटेड
97	U31100WB2010PTC153006	काइज़ेन प्रोसेस इक्यूपमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
98	U74999WB2010PTC153283	हनुमन्त कमोडिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड
99	U74999WB2010PTC153424	न्यू किरण टेक एजेंसी प्राइवेट लिमिटेड
100	U51909WB2010PTC154014	गॉडविन ट्रेडलिक प्राइवेट लिमिटेड
101	U23101WB2010PTC154019	आर के बायोडीजल प्राइवेट लिमिटेड

क्र० स०	सी.आई.एन	कम्पनी का नाम
102	U74999WB2010PTC154066	ग्रीनलैंड कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड
103	U72900WB2010PTC154133	रैनबो ऑनलाइन सोलुशन प्राइवेट लिमिटेड
104	U01403WB2010PLC154172	लोकनाथ एगो लिमिटेड
105	U45200WB2010PLC154303	ग्रीन हैवन प्रोजेक्ट लिमिटेड
106	U01403WB2010PLC154317	माक ग्लोबल एगो इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड
107	U27100WB2010PTC154676	विद्यावासिनी कस्टिंग प्राइवेट लिमिटेड
108	U51909WB2010PTC155378	एकता परिवार मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
109	U70109WB2010PLC155532	सुराहा इन्फ्रा- रियलटी (इंडिया) लिमिटेड
110	U25203WB2010PTC155629	जैसवाल एक्वा प्लास्ट प्राइवेट लिमिटेड

प्रणय चतुर्वेदी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
पश्चिम बंगाल

लिमिटेड लाइविलिटी पार्टनरशिप अधिनियम 2008 तथा निम्नलिखित एल.एल.पी. के मामले में

कोलकाता, दिनांक 24 जुलाई 2014

सं. क.र./प.व./एल.एल.पी.-75/2014—उपरोक्त विषय पर भारत के राजपत्र में अधिसूचित हेतु एल.एल.पी. नियम 2009 का नियम 37(3) के साथ पठित लिमिटेड लाइविलिटी पार्टनरशिप अधिनियम 2008 की धारा 75 के अन्तर्गत निम्नलिखित 1 एल.एल.पी. के नाम आज के दिन से रजिस्टर से काट दिए हैं तथा वे एल.एल.पी. विघटित कर दी गई हैं।

क्र. सं.	एलएलपीआईएन	एलएलपी का नाम
1	AAB-1717	इन्नोवेटिव फ्लैक्सिबल ट्रिप एल.एल.पी

प्रणय चतुर्वेदी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
पश्चिम बंगाल

CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION

New Delhi – 110003, the 18th June 2014

No. DPPERS.I2014/0065/3/72/2012(Pt.)—Shri G. Venkata Swami Goud, Sr. PP, CBI, ACB, Bangalore has relinquished the charge of the post of Senior Public Prosecutor, CBI with effect from the afternoon of 31.05.2014 on superannuation.

DEEPIKA SURI
Dy. Director (Pers.)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

DIRECTORATE GENERAL, CRPF

New Delhi-110 003, the 10th July 2014

No.P.VII-1/2014-Min—Consequent on their promotion to the post of Assistant Commandant(Ministerial), the following Subedar Major(Ministerial) have taken over charge as Assistant Commandant(Ministerial) in the Offices and on the dates as mentioned against each :—

Sl . No.	Name of Officer	Office in which Posted	Date of taking over charge
01	Shri Pawan Kumar Sharma, Assistant Commandant (IRLA-9892)	O/O Commandant, 06 Battalion, NDRF, Gandhinagar, Gujarat.	16/12/2013(FN)
02	Shri Paneer Selvam P, Assistant Commandant (IRLA-9897)	O/O DIGP, Central Reserve Police Force, Pune.	12/03/2014(FN)
03	Shri Sube Singh, Assistant Commandant (IRLA- 9878)	O/O DIGP, Group Centre, Central Reserve Police Force, Bantalab.	18/09/2013(FN)
04	Shri Krishna Kumari Karki, Assistant Commandant (IRLA- 9831)	O/O DIGP, Group Centre, Central Reserve Police Force, Gurgaon.	16/05/2013(FN)
05	Shri Sirosh Kumar A. R. Assistant Commandant (IRLA- 9835)	O/O DIGP, Central Reserve Police Force, Pune.	17/06/2013(FN)
06	Shri M. Rehman, Assistant Commandant (IRLA- 9898)	O/O DIGP, Group Centre, Central Reserve Police Force, Bhubaneswar.	10/04/2014(FN)
07	Shri G. Arunachalam, Assistant Commandant (IRLA- 9829)	O/O DIGP, Central Reserve Police Force, Raipur.	24/06/2013(FN)
08	Shri T.J. Joseph, Assistant Commandant (IRLA- 9877)	O/O IGP, Odisha Sector, Central Reserve Police Force, Bhubaneswar.	09/09/2013(FN)

R. R. DUTTA
DIG (ORG)

The 11th July 2014

No. P.VII-1/2014-Min—Consequent on their promotion to the post of Assistant Commandant [Ministerial], the following Subedar Major [Ministerial] have taken over charge as Assistant Commandant [Ministerial] in the Offices and on the dates as mentioned against each :—

Sl. No.	Name of Officer	Office in which Posted	Date of taking over charge
01	Shri Vijay Kumar Singh, Assistant Commandant [IRLA-9879]	O/O IGP, Manipur & Nagaland Sector, Central Reserve Police Force, Imphal	02/09/2013 [FN]
02	Shri R. Narayana Rao, Assistant Commandant [IRLA-9833]	O/O DIGP, Group Centre, Central Reserve Police Force, Taralu	26/06/2013 [FN]

R. R. DUTTA
DIG (ORG)

New Delhi-110003, the 14th July 2014

No. O.II-5005/2014-Pers-DA-3—Regret to notify that Shri Hira Kumar Jha, Second-in-Command (IRLA: 5005) of 07 Bn CRPF expired on 04/07/2014 at about 0515 hrs due to he sustained bullet injury in his head. Accordingly, he has been struck off the strength of this Force with effect from the same date i.e. 04/07/2014 (AN).

M.C. PANWAR
DIG (Pers.)

The 21st July 2014

No. O.II.5361/2014-DA-4-Pers—Consequent on acceptance of his notice of Voluntary Retirement from Government Service by the competent authority, Shri B. Saravanan, Deputy Commandant (IRLA-5361) of Central Training College, CRPF, Coimbatore (Tamilnadu) has relinquished his post on 16/07/2014(FN). Accordingly, his name stands deleted from the strength of the Force with effect from 16/07/2014(FN).

M.C. PANWAR
DIG (Pers.) Dte.

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

Mumbai- 400 001, the 25th July 2014

No. 1/6(4)/2010-Power/9553—The President is pleased to appoint the following Scientific Officers/Engineers of this Department who are on permanent deputation to the Nuclear Power Corporation of India Limited (NPCIL) to the grade as mentioned against each and as detailed below in an officiating capacity until further orders:—

Sl. No.	Name (S/Shri)	Present Grade	Promoted to Grade	Pay Band (Rs.) PB-3	Grade Pay (Rs.)	Unit
1.	S.P. Srivastava	SO/D	SO/E	15600-39100	7600	KAPP- 3&4
2.	Markandey Mishra	SO/D	SO/E	15600-39100	7600	NAPS
3.	R.D. Jaisinghani	SO/D	SO/E	15600-39100	7600	TAPS -1&2
4.	Patil V.R.	SO/D	SO/E	15600-39100	7600	NPCIL -HQ

2. The officer at Sr. No. 1 had relinquished charge w.e.f. 01.07.2012 (FN) and the officers at Sr.No. 2, 3 & 4 have relinquished charge w.e.f. 01.07.2013 (FN) of the lower post held by them.

A. SUKUMARAN
Under Secy.

BOARD OF RADIATION AND ISOTOPE TECHNOLOGY

Navi Mumbai- 400703, the 16th July 2014

No. BRIT/9/18/2013/03—Chief Executive, Board of Radiation and Isotope Technology appoints Shri Ramakrishna Kotian, Stenographer Grade-I to the post of Private Secretary (Non-Secretariat) with effect from the forenoon of June 18, 2014 in the Pay Band-2 of Rs. 9,300—34,800/- + Grade Pay Rs. 4800/- in this Board until further orders.

G. R. PILLAI
Chief Administrative Officer

No. BRIT/9/18/2013/04—Chief Executive, Board of Radiation & Isotope Technology, Navi Mumbai appoints Smt. Karuna Prakash Lokhande, Assistant, Bhabha Atomic Research Centre, Trombay, Mumbai - 400085 to officiate as Assistant Personnel Officer (Pay Band-2 of Rs. 9,300—34,800/- with Grade pay of Rs. 4,800/-) in the Board of Radiation & Isotope Technology, Department of Atomic Energy, Navi Mumbai 400705 with effect from the forenoon of July 01, 2014, until further orders.

G. R. PILLAI
Chief Administrative Officer

HEAVY WATER BOARD

Mumbai - 94, the 4th July 2014

No. HWB/R/4/(14)/2013/3325—The President is pleased to appoint Shri Subbarathnam Jayachandran, Scientific Officers/Engineers Grade 'E' in the pay band of Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay of Rs. 7,600/- of Heavy Water Board (C.O.) as Scientific Officer/ Engineer Grade 'F' in the pay band of Rs. 37,400—67,000/- + Grade Pay of Rs. 8,700/- in the same office with effect from the forenoon of July 1st, 2013.

V. M. THOMAS
Chief Administrative Office

RAJA RAMANNA CENTRE FOR ADVANCED TECHNOLOGY

Indore, the 22nd July 2014

No. RRCAT/Admin/2013/R-805/785—The President is pleased to appoint the following Scientific Officer/C (PB:3, Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 5,400/-) as Scientific Officer/D (PB:3, Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 6,600/-) with effect from 01-07-2013 (Forenoon) in Raja Ramanna Centre for Advanced Technology, Indore until further orders:—

Sl. No.	C.C. No.	Name	Division
1	1014	Shri Sunil Kumar Sharma	SSLD
2	1029	Shri Manoj Kumar	SSLD
3	1271	Shri Ashok kumar	AMTD
4	1353	Shri Deepak Kumar Vats	IOAPDD
5	1783	Shri Rahul Jain	ACBDD
6	1786	Shri Kunver Adarsh Pratap Singh	PHPMS
7	1788	Kum. Madhusmita Baral	ISUD
8	1790	Shri Jagdish Chandra	MAASD
9	1792	Shri Sarthak Gupta	CD
10	1793	Shri Debasis Sinhamahapatra	IOAPDD
11	1832	Kum. Ranjana Rathore	LPD
12	1833	Kum. Rinky Dhingra	MAASD
13	1836	Shri Pankaj Kumar Kushwaha	LBAID

B. K. JENA
Chief Administrative Officer

No. RRCAT/Admin/R-707/791—The President is pleased to appoint Shri Amit Rangire as Technical Officer/C with effect from 21.07.2014 (Forenoon) in the Pay Band-3, Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 5,400/- in Raja Ramanna Centre for Advanced Technology, Indore until further orders.

B. K. JENA
Chief Administrative Officer

No. RRCAT/Admin/2013/R-805/793—The President is pleased to appoint the following Scientific Officer/D (PB:3, Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 6,600/-) as Scientific Officer/E (PB:3, Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 7,600/-) with effect from 01-07-2013 (Forenoon) in Raja Ramanna Centre for Advanced Technology, Indore until further orders:—

Sl. No.	C. C. No.	Name	Division
1	426	Shri Ram Shiroman	UHVTS
2	508	Shri Pradeep Kumar Mishra	C&SD
3	794	Shri Surendra Singh	LPAS
4	795	Shri R. Sundar	SSLD
5	841	Shri Suresh Chandra Vishwakarma	SSLD
6	866	Shri B. Gowri Sankar	ACDFS
7	1065	Shri Kavindra Kumar Bachhil	CD
8	1569	Dr. Zahid Beg Mirza	RMC
9	1613	Shri Anuj Upadhyay	ISUD
10	1620	Shri Govind Kumar Mishra	LSES
11	1633	Kum. Asmita Malik	LBAID
12	1643	Shri Saket Kumar Gupta	MAASD
13	1645	Shri Rajesh Kumar Patidar	LPD
14	1670	Shri Salahuddin Khan	LPAS
15	1674	Shri Prasanta Kumar Jana	MAASD
16	1707	Shri Rahul Gaur	MAASD
17	1708	Kum. Rinki Upadhyay	RFSD
18	1714	Shri Avanish Ojha	ACBDD
19	1808	Dr. L.S. Sharath Chandra	MAASD
20	1838	Shri Vivek Nema	CCDS

B. K. JENA
Chief Administrative Officer

No. RRCAT/Admin/2013/R-805/794—The President appoints the following Scientific Officer/D (PB:2, Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 6,600/-) as Scientific Officer/E (PB:3, Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 7,600/-) with effect from forenoon of the dates mentioned against each in Raja Ramanna Centre for Advanced Technology, Indore until further orders:—

Sl. No.	C. C. No.	Name	Date	Division
1	1727	Dr. (Smt.) Pooja Gupta	02.07.2013	ISUD
2	1772	Dr. (Smt.) Rashmi Shrivastava	23.10.2013	LBAID

B. K. JENA
Chief Administrative Officer

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS
OFFICE OF THE REGISTRAR OF COMPANIES

In the matter of Companies Act, 1956 and of the following Companies

New Delhi-110019, the 23rd July 2014

No. RoC/Delhi/560(5)/FTE-2011/5589—Notice is hereby given to Sub-Section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of the following Companies have this day been struck off from the register and the said Companies are dissolved :—

Sl. No	CIN	COMPANY NAME
1	2	3
1	U31101DL1997PTC086823	A C GENERATOR SALES AND SERVICE PRIVATE LIMITED
2	U74140DL2007PTC163548	AADIVIDYA PROUDYOGIKI PRIVATE LIMITED
4	U74899DL2003PTC118387	ABN SURGICALS PRIVATE LIMITED
5	U74899DL1989PTC037862	ACCORD ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
6	U51101DL2007PTC166201	ACI MARKETING SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
7	U72300DL2008PTC183718	ACORN ANALYTICS PRIVATE LIMITED
8	U24100DL2010PTC207039	ACUITY PHARMACEUTICALS PRIVATE LIMITED
9	U18101DL2005PTC133921	ACUMEN GARMENTS PRIVATE LIMITED
10	U33111DL2010PTC200241	ADVANCE LIFE SCIENCE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
11	U25209DL1996PTC077956	ADVANCE VACUUM FLASK INDUSTRIES PRIVATE LIMITED
12	U80302DL2006PTC151860	AMERICAN SCHOOL OF AVIATION (INDIA) PRIVATE LIMITED
13	U51909DL2002PTC117473	ANAAKSU OVERSEAS PRIVATE LIMITED
14	U72300DL2008PTC179806	APACE INFOTECH PRIVATE LIMITED
15	U45400DL2008PTC184533	ARABELLAS INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED
16	U00063DL2005PTC141062	ARROW DISTRIBUTION (WEST BENGAL) PRIVATE LIMITED
17	U29299DL1996PTC077037	ASHITECH ENGINEERING AND MARKETING PRIVATE LIMITED
18	U24232DL2008PTC180212	ASPIRA MARKETING COMPANY PRIVATE LIMITED
19	U63023DL2008PTC180713	AURA CONTAINER SERVICES PRIVATE LIMITED
20	U45204DL2010PTC204621	AYAKO INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED
21	U74140DL2005PTC140653	BANYAN TECHNOLOGY CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
22	U32109DL1998PTC095896	BAVEJA SYSTEMS PRIVATE LIMITED
23	U55101DL2011PTC215153	BEACH N WOODS HOTELS AND RESORTS PRIVATE LIMITED
24	U01400DL2012PTC240207	BEST SEASONS AGRO PRIVATE LIMITED
25	U67120DL1997PTC086066	BHAGIRATHI CAPINFINLEASE PRIVATE LIMITED
26	U52399DL2012PTC236839	BUY2READ NETWORK PRIVATE LIMITED
27	U31300DL2007PTC157306	CALIBRE CABLES PRIVATE LIMITED
28	U74900DL2006PTC148631	CARE FIRST TELENET PRIVATE LIMITED
29	U31200DL1987PTC029102	CLASSIC SYSTEMS PRIVATE LTD.
30	U72900DL2011PTC214376	CNM GRAPHICS & IT SERVICES PRIVATE LIMITED
31	U30007DL1996PTC083491	COMPUTER SPOT (INDIA) PRIVATE LIMITED
32	U80302DL2012PTC232301	CORPORATE CONNECT EDUCATION PRIVATE LIMITED

1	2	3
33	U74140DL2009PTC186526	CORPORATE VITALITY INDIA PRIVATE LIMITED
34	U70109HR2012PTC047459	CORPUS REALTY INDIA PRIVATE LIMITED
35	U55204DL2008SGC173413	CRYSTAL BUSINESS VENTURES PRIVATE LIMITED
36	U74899DL1993PTC054765	CUTECH METALS PRIVATE LIMITED
37	U45400DL2007PTC166806	DEEPANK INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED
38	U70200DL1997PTC089849	DESTINATION FAMILY ENTERTAINMENT (INDIA) PRIVATE LIMITED
39	U74900DL2008PTC184441	DHAJA RAM SPICES PRIVATE LIMITED
40	U74140DL2012PTC232474	ELITE EDU SYS PRIVATE LIMITED
41	U45207DL2008PTC184355	EMPEROR POWER PRIVATE LIMITED
42	U65910DL1991PLC045270	FIDELITY CREDIT LIMITED
43	U55101DL2011PTC226598	FOOTARI HOTELS & RESORTS PRIVATE LIMITED
44	U74140DL2012PTC237121	FORDEE DESIGNS PRIVATE LIMITED
45	U24100DL2009PTC191257	FRONTIUS PHARMACEUTICALS AND CHEMICALS PRIVATE LIMITED
46	U31908DL2011PTC215709	FURSTLOOK ELECTRONICS PRIVATE LIMITED
47	U35990HR2011PTC044508	FUTURE AERONAUTICS PRIVATE LIMITED
48	U01403DL2012PTC239769	FUTURE INFRA AGRO PRIVATE LIMITED
49	U74210DL2006PTC145454	G.EDU VISTAS CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
50	U51109DL2012PTC235939	GBW FUSION PRIVATE LIMITED
51	U72900DL2010PTC205378	GENERIC INFO SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
52	U23109DL2011PTC216859	GENEX COKE PRIVATE LIMITED
53	U18101DL2005PTC135833	GIANI GARMENTS PRIVATE LIMITED
54	U45200DL2007PTC157802	GLP BUILDTECH PRIVATE LIMITED
55	U74899DL1980PTC010182	GOLDIE HISEX FARMS PVT LTD
56	U01403DL1995PLC064335	GOURMET AGRO INDUSTRIES LIMITED
57	U55101DL2010PTC210167	GREATVALUE HOSPITALITY PRIVATE LIMITED
58	U01403DL2012PTC239149	GREENWAVE AGRO PRIVATE LIMITED
59	U72200DL2000PTC105716	HARMONIC IT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
60	U74899DL1995PTC065878	HAYLIMAN ELECTRONICS PRIVATE LIMITED
61	U72900DL2012PTC241665	HEPTULLHA COMMUNICATIONS PRIVATE LIMITED
62	U34300HR1988PTC030240	HI-MECH ENGINEERS PVT LTD
63	U22200DL2010PTC201211	HITAISHI NIDHI IMPEX PRIVATE LIMITED
64	U18101DL2004PTC128723	I G S GARMENTS PRIVATE LIMITED
65	U70109DL2012PTC241608	ICAP GLOBAL PRIVATE LIMITED
66	U45400DL2008PTC172472	IMOST SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
67	U45400DL2012PTC244125	IMPERIA INFRAESTATE PRIVATE LIMITED
68	U40108DL2010PTC210981	INDORI RENEWABLE ENERGY PRIVATE LIMITED

1	2	3
69	U74140DL2010PTC199642	INSPACE FURNISHINGS PRIVATE LIMITED
70	U45200DL2006PTC153004	JAGAN INFRABUILD PRIVATE LIMITED
71	U65992DL2003PTC120898	JAI GITESH CHITS PRIVATE LIMITED
72	U74899DL2005PTC143243	JAIN BROTHERS BUILDCOM PRIVATE LIMITED
73	U74999DL2011PTC225476	JNM BUSINESS PRIVATE LIMITED
74	U74140DL2011PTC219848	JVM HR SERVICES PRIVATE LIMITED
75	U74140DL2011PTC219848	JVM HR SERVICES PRIVATE LIMITED
76	U51909DL1995PTC064960	K.S. FOODS & TRADE LINKERS PRIVATE LIMITED
77	U70102DL2013PTC260932	KALPTARU CORPORATE HOUSING PRIVATE LIMITED
78	U85191DL2008PTC186131	KANAN HEALTHCARE PRIVATE LIMITED
79	U72900DL2001PTC112426	KEMASHIBO INFOCITY PRIVATE LIMITED
80	U17200DL2010PTC203512	KEMP KORSET DEZIGNS PRIVATE LIMITED
81	U17200DL2010PTC203512	KEMP KORSET DEZIGNS PRIVATE LIMITED
82	U65191DL2012PLC239836	KHL INVESTMENTS LIMITED
83	U45400DL2007PTC165175	KOLOR KONCEPT REALTORS INDIA PRIVATE LIMITED
84	U74999DL2009PTC191454	KOYO LIFT SYSTEMS INDIA PRIVATE LIMITED
85	U63013DL2006PTC147944	LEO LOAD CRUSIER PRIVATE LIMITED
86	U01400DL2012PTC237568	LIFELINE AGROTECH PRIVATE LIMITED
87	U74140DL2008PTC183439	LORANT TRADING SERVICES PRIVATE LIMITED
88	U70102DL2013PTC258757	M.A-R.P REALCON PRIVATE LIMITED
89	U70109DL2013PTC258708	M.R. HOME DECOR PRIVATE LIMITED
90	U70109DL2010PTC210522	MAHANIDHI DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
91	U51103DL2012PTC232053	MAIDEN IMPEX PRIVATE LIMITED
92	U70102DL2013PTC259602	MANI-RATTAN REALTORS PRIVATE LIMITED
93	U40102DL2010PTC210982	MARKANDA RENEWABLE ENERGY PRIVATE LIMITED
94	U74899DL1987PTC027341	MECHPLAST ENGINEERS PRIVATE LIMITED
95	U74899DL1991PTC046709	MERCURY TELECOMMUNICATIONS PRIVATE LIMITED
96	U74900DL2009PTC194894	MERIT PACKAGING PRIVATE LIMITED
97	U70102DL2013PTC256845	MURLIDHAR CORPORATE RESORTS PRIVATE LIMITED
98	U70102DL2013PTC255901	MURLIDHAR TOWN PLANNERS PRIVATE LIMITED
99	U74920DL1998PTC094128	NARA PLACEMENTS PRIVATE LIMITED
100	U63090DL2004PTC127969	NCPL LOGISTICS PRIVATE LIMITED
101	U74140DL2011PLC225012	NENOTECH MOBILE LIMITED
102	U93000DL2011PTC216636	NEUERTH CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
103	U70200DL2010PTC210329	NEZHA REALTORS PRIVATE LIMITED
104	U01130DL2008PTC184480	NIFTI AGRO FOODS PRIVATE LIMITED
105	U70109DL2010PTC210436	NRITYPRIYA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED

1	2	3
106	U52599DL2009PTC188247	NUGA BEST THERMOTHERAPY CENTER PRIVATE LIMITED
107	U52599DL2009PTC188247	NUGA BEST THERMOTHERAPY CENTER PRIVATE LIMITED
108	U51909DL2004PTC124534	P.D. EXIM (INDIA) PRIVATE LIMITED
109	U27201DL1997PTC088474	PALMS TELECOM PRIVATE LIMITED
110	U15420DL1973PLC006819	PARAMJIT SUGAR FACTORY LIMITED
111	U70109DL2010PTC210438	PARAMJYOTI REALTECH PRIVATE LIMITED
112	U74899DL1995PLC074188	PEARL SEEDS LIMITED
113	U65923DL2006PTC151431	PERSEUS INDIA ADVISORS PRIVATE LIMITED
114	U15541DL2005PTC139390	PINNACLE BEVERAGES PRIVATE LIMITED
115	U74140HR2011PTC043470	PIVOT RETAIL SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
116	U74899DL2000PTC108673	PRAHLAD CONVENCING PRIVATE LIMITED.
117	U45201DL2006PTC145557	PRASHANT BUILDERS AND ESTATES DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
118	U33111DL2004PTC130482	PRAVILA MEDISURGICAL PRIVATE LIMITED
119	U24233DL2007PTC165238	PRECISION HERBALS PRIVATE LIMITED
120	U01407DL2012PTC241140	PRIMETIME AGRO PRIVATE LIMITED
121	U93030DL2010PTC199633	PRISHA CULTURE AND EDUCATION PRIVATE LIMITED
122	U40108DL2013PTC248066	PRO GREENTECH SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
123	U24233DL2008PTC184851	PURE SOURCE ESSENTIAL OILS & AROMA CHEMICALS PRIVATE LIMITED
124	U74140DL2010PTC204253	QUADRILLION SOLUTIONS & SERVICES PRIVATE LIMITED
125	U45402DL2008PTC183098	QUIPID DECORS PRIVATE LIMITED
126	U14200DL2009PTC189318	RAC STONES & GRANITE PRIVATE LIMITED
127	U72900DL2009PTC191564	RAZADO ESERVICES PRIVATE LIMITED
128	U67120DL1991PLC043806	RBG INVESTMENT AND FINANCE LIMITED
129	U45200DL2011PTC216329	REINSTATE CONSTRUCTION COMPANY PRIVATE LIMITED
130	U01403DL2012PTC239625	RIGHTLINE AGRICULTURE PRIVATE LIMITED
131	U74900DL2011PTC216717	ROCKWOOD HOSPITALITY ASSOCIATES PRIVATE LIMITED
132	U55101DL2005PTC141336	ROSEWOOD HOTELS PRIVATE LIMITED
133	U24234DL2005PTC138335	ROUSE HOMOE0-DISTRIBUTORS PRIVATE LIMITED
134	U74991DL2007PTC165046	ROYALCERT CERTIFICATION PRIVATE LIMITED
135	U51909DL2008PTC176508	RUSAGRO INTER-TRADE PRIVATE LIMITED
136	U74899DL1984PTC018558	SAHIB INTERIORS PRIVATE LIMITED
137	U28113DL2009PTC188864	SANKO METALS PRIVATE LIMITED
138	U73200DL2010PTC200596	SATCON INDIA PRIVATE LIMITED
139	U67120DL1996PLC081903	SBEC INVESTMENTS LIMITED
140	U70102DL2012PTC239216	SHANTI DEVELOPWELL PRIVATE LIMITED
141	U74899DL1995PTC072204	SHANTI YARNS PVT LTD

1	2	3
142	U29197DL2004PTC128757	SHELLY FILTRATION SYSTEMS PRIVATE LIMITED
143	U45204DL2011PTC219953	SHREE SATGURU INFRATECH PRIVATE LIMITED
144	U45200DL2008PTC178842	SHREEJEE NESTBUILD DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
145	U51101DL2010PTC200250	SHRI SHIV ELECTRICALS & HARDWARE PRIVATE LIMITED
146	U65992HR1999PTC034398	SHUBHANIA CHIT FUND PRIVATE LIMITED
147	U18101DL2008PTC182315	SIR CREATION PRIVATE LIMITED
148	U51909DL2005PTC133644	SKY UP IMPEX PRIVATE LIMITED
149	U17120DL2008PTC179794	SKYLARK APPARELS PRIVATE LIMITED
150	U74900DL2009PTC188615	SMART FASHION KINGDOM PRIVATE LIMITED
151	U72900DL2003PTC122474	SMART LIBRARY NETWORK PRIVATE LIMITED
152	U36900DL2011PTC225781	SMRK MANUFACTURERS PRIVATE LIMITED
153	U41000DL2010PTC197620	SO PURE WATER (INDIA) PRIVATE LIMITED
154	U92490DL1989PLC037823	SRF EMPLOYEES WELFARE COMPANY LIMITED
155	U74999DL2002PTC114809	SUMAITRI BIMA DISTRIBUTORS PRIVATE LIMITED
156	U40300HR2013PTC049737	SUNBORNE ENERGY & PROJECTS PRIVATE LIMITED
157	U40106HR2013PTC049746	SUNBORNE ENERGY POWER DEVELOPMENT PRIVATE LIMITED
158	U40106HR2013PTC049755	SUNBORNE ENERGY POWERGEN PRIVATE LIMITED
159	U40300HR2013PTC049974	SUNBORNE ENERGY SOLAR POWER PRIVATE LIMITED
160	U74899DL1986PTC024224	SUPER CARGO INDIA PRIVATE LIMITED
161	U64120DL1998PTC091782	SUPER KINETIC COURIER PRIVATE LIMITED
162	U74900DL2008PTC179734	SUPERUS WEDDINGS & EVENTS PRIVATE LIMITED
163	U40101DL2010PTC203559	SURYA UTTAR HYDRO POWER PRIVATE LIMITED
164	U31200DL1988PTC032323	SUVIDHA HOME APPLIANCES PRIVATE LIMITED
165	U74900HR2010PTC040120	SYNDICATE HOMES PRIVATE LIMITED
166	U45400DL2008PTC174645	TAURUS BUILDHOME PRIVATE LIMITED
167	U85100DL2012PTC234654	TECHHEALTH CARE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
168	U74999DL2011PTC229514	TOMORROWS COMPANY GGBS BUSINESS CONSULTANCY PRIVATE LIMITED
169	U63040HR2010PTC040934	UNITECH TOUR & TRAVELS PRIVATE LIMITED
170	U80301HR2012PTC045898	UNIVERSAL STUDIES PRIVATE LIMITED
171	U45400DL2008PTC180187	UVA PROMOTERS PRIVATE LIMITED
172	U74140DL2009PTC186417	VALUE CHAIN CONSULTING PRIVATE LIMITED
173	U22300DL2008PTC184850	VERITY MEDIA & PRODUCTIONS PRIVATE LIMITED
174	U74899DL1984PTC017773	VESGA SALELS PRIVATE LIMITED
175	U27202DL1987PTC027505	VIMSA PIPES AND TUBES PRIVATE LIMITED
176	U65202DL2003PTC119549	VINSUM MEDIA COMMUNICATIONS PRIVATE LIMITED
177	U01114DL1982PTC013303	VIRAT ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
178	U23201DL2010PTC205881	VISCON PETRO INDIA PRIVATE LIMITED

1	2	3
179	U45200DL2007PTC157803	VISTA BUILDTECH PRIVATE LIMITED
180	U74900DL2007PTC163198	VISTA MARINE SHIP BROKERS PRIVATE LIMITED
181	U70101DL2010PTC210449	VITIM DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
182	U80900HR2011PTC042112	VIVEKANAND EDUCOM PRIVATE LIMITED
183	U74140DL2011PTC220343	VKAARYA CORPORATE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
184	U92100DL2009PTC186735	VM FINAL CUT ENTERTAINMENT PRIVATE LIMITED
185	U74899DL2000PLC103309	WEBTECH SOLUTIONS LIMITED.
186	U28999DL1997PLC087609	WELMOUNT INDUSTRIES LIMITED
187	U51220DL2013PTC247281	XXL DRINKS PRIVATE LIMITED
188	U72300DL2012PTC232623	ZAANKAY TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
189	U74140DL1999PTC099726	ZIKOM ASSOCIATES PRIVATE LIMITED

P. L. MALIK
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of the following Companies

Kolkata, the 24th July 2014

No.ROC/WB/SM/560/2014 Notices is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the names of the following 110 Companies have on this day been struck off from the Register and the Companies are dissolved :—

Sl. No.	CIN	Name of the company.
1	2	3
1	U26931WB2010PTC155366	SINGHANIA FLYASH BRICKS & PAVERS PRIVATE LIMITED
2	U74999WB2010PLC155444	ELENOR MARKETING SERVICES LIMITED
3	U45400WB2010PTC155505	SUNSHINE REALINFRA PRIVATE LIMITED
4	U45400WB2010PLC156097	BDM PHARMACEUTICALS LIMITED
5	U74999WB2010PTC156282	BETA SCAN DIAGNOSTIC CENTRE PRIVATE LIMITED
6	U45400WB2010PTC156315	BANSAL NIWAS PRIVATE LIMITED
7	U29222WB2009PTC138829	AMRIT SUDHA AQUA WATER TECHNOLOGY PVT. LTD.
8	U01400WB2010PTC152358	VANDITA AGRO FOODS PRIVATE LIMITED
9	U74999WB2010PTC153967	DHANLAXMI MULTISERVICES PRIVATE LIMITED
10	U85110WB2010PTC156223	APSARA EYE HOSPITAL PRIVATE LIMITED
11	U01134WB2010PTC154909	ADARSHA MODERN RICE MILL PRIVATE LIMITED
12	U70109WB2010PLC155751	MOTHER GREENERY PROJECT DEVELOPER LIMITED
13	U51909WB2010PTC156052	MANAB BANDHAN MARKETING PRIVATE LIMITED
14	U45400WB2010PLC153476	SDA CREATIVE REAL ESTATE LIMITED
15	U70102WB2010PLC153528	PRAGATI BHUMI INDIA LIMITED
16	U51909WB2010PTC153534	BRIJBHUMI TRADELINK PRIVATE LIMITED
17	U74999WB2010PTC153649	TRANSFORM CONSULTANCY SERVICES PRIVATE LIMITED

1	2	3
18	U74999WB2010PTC153708	FUTURE SOLVE TRADING PRIVATE LIMITED
19	U45400WB2010PLC153925	LIBERTY INDIA INFRA PROJECTS LIMITED
20	U70109WB2010PLC154421	BHABISHWA ARYA REAL ESTATES (INDIA) LIMITED
21	U85100WB2010PTC154435	KARUNA MEMORIAL HEALTH & EDUCATION PVT. LIMITED
22	U52390WB2010PTC154506	GAJRAJ DEALMARK PRIVATE LIMITED
23	U51909WB2010PTC154546	MANDAKINI DEALER PRIVATE LIMITED
24	U51909WB2010PTC154582	BUNIYAD TRADELINKS PRIVATE LIMITED
25	U70102WB2010PTC154625	INTIME HIRISE PRIVATE LIMITED
26	U28999WB2010PTC154671	SPA STEEL PRIVATE LIMITED
27	U74999WB2010PTC155018	SRISHTEE VINTRADE PRIVATE LIMITED
28	U51909WB2010PTC155092	CRYSTAL SURFACE MARKETING PRIVATE LIMITED
29	U74999WB2010PTC155108	FASTMOVE MERCHANTS PRIVATE LIMITED
30	U85110WB2010PTC155443	ELENOR LIFE CARE SERVICES PRIVATE LIMITED
31	U51909WB2010PTC155679	SWEIZ TRADING PRIVATE LIMITED
32	U32109WB2010PTC155779	BAID MOBILES PRIVATE LIMITED
33	U72200WB2010PTC155987	PW SOFTECH PRIVATE LIMITED
34	U51909WB2010PTC156197	LOOKLINE MERCANTILE PRIVATE LIMITED
35	U63090WB2010PTC156304	BSB LOGISTICS PRIVATE LIMITED
36	U93000WB2010PLC156321	FIVE STAR SOUTHERN SAMITY LIMITED
37	U70109WB2010PLC156156	DHANAPATI INFRA INDIA LIMITED
38	U17291WB2010PTC152664	CHOKHANI TEXTILES PRIVATE LIMITED
39	U51109WB1996PTC081216	PIONEER TRACON PRIVATE LIMITED
40	U74999WB2010PTC152181	DURGA MATA HIMGHAR PRIVATE LIMITED
41	U52100WB2010PTC152447	DHARAPATI TRADERS PRIVATE LIMITED
42	U15122WB2010PTC152704	SUDHA MINERALS PRIVATE LIMITED
43	U74999WB2010PTC152765	RAMKRISHNA PVC PIPE PRIVATE LIMITED
44	U51909WB2010PTC152809	BELLFLOWER MARKETING PRIVATE LIMITED
45	U34300WB2010PTC152839	B. N. MOTORS PRIVATE LIMITED
46	U70200WB2010PTC141711	LAS INFRAPROJECTS PRIVATE LIMITED
47	U13206WB2010PTC141962	LAS MINING PRIVATE LIMITED
48	U74900WB2010PTC153014	REVERIE MARKETING PRIVATE LIMITED
49	U01403WB2010PTC153121	MSB AGRO DEVELOPMENT PROJECT PRIVATE LIMITED
50	U67190WB2010PTC153333	ID SECURITIES PRIVATE LIMITED
51	U51909WB2010PTC153353	FARISTA COMMODEAL PRIVATE LIMITED
52	U51909WB2010PTC153112	EASTCOAST SALES & SERVICES PRIVATE LIMITED
53	U72900WB2010PTC153319	TCC INFOTECH PRIVATE LIMITED
54	U74999WB2010PTC153491	STANDARD UNITECH CAREER PRIVATE LIMITED

1	2	3
55	U51909WB2010PTC153580	KINGFISHER COMMERCIAL PRIVATE LIMITED
56	U45201WB1992PTC055200	SM ROYAL SHERATON DEVELOPERS INDIA PVT LTD
57	U28112WB2010PTC153924	R. S. K. CONTAINER FABRICATORS PRIVATE LIMITED
58	U70102WB2010PTC153961	SANGEETA INFRA PROPERTIES PRIVATE LIMITED
59	U74990WB2010PTC154304	MCS ADVISORY SERVICES PRIVATE LIMITED
60	U31200WB2010PTC154464	ASCENT SYSTEMS PRIVATE LIMITED
61	U52100WB2010PTC154558	PHARSHA TRACOM PRIVATE LIMITED
62	U74999WB2010PTC154666	A.S.EVENT MANAGEMENT PRIVATE LIMITED
63	U51101WB2010PTC154718	FUTUREMOVING MARKETING PRIVATE LIMITED
64	U01403WB2010PLC155002	SWADHIN AGRO PLANT INDIA LIMITED
65	U70109WB2010PTC155392	PLANET REAL ESTATE PRIVATE LIMITED
66	U45400WB2010PTC155736	RIGHT CHOICE PROJECT PRIVATE LIMITED
67	U74140WB2010PTC155749	SUNBEAM CONSULTANT PRIVATE LIMITED
68	U52190WB2010PTC156073	IMPU MARKETING SERVICES PRIVATE LIMITED
69	U45400WB2010PLC156098	BDM POWER PRODUCTS LIMITED
70	U52190WB2010PTC156370	AASTHA DEALMARK PRIVATE LIMITED
71	U25209WB2010PTC155536	SHAWJEE POLYTECH PRIVATE LIMITED
72	U74999WB2010PTC155547	BOOK- MY TRAVELS PRIVATE LIMITED
73	U52300WB2010PTC152359	AAKSHA LIFE CARE PRODUCTS NETWORK MARKETING PRIVATE LIMITED
74	U74120WB2010PTC150153	ROY MULTIPURPOSE HEEMGHAR PRIVATE LIMITED
75	U51909WB2010PTC152428	SAHARSH COMMOTRADE PRIVATE LIMITED
76	U74900WB2010PTC152640	RAISE MULTI CARE SERVICES PRIVATE LIMITED
77	U45400WB2010PLC152689	NIHARIKA INFRAPROPERTY LIMITED
78	U74999WB2010PTC152776	SCT COMTRADE PRIVATE LIMITED
79	U05000WB2010PTC152876	MAA HARIPRIYA FISHING COMPANY PRIVATE LIMITED
80	U01403WB2010PTC152991	JAGAT BANDHU RICE MILL PRIVATE LIMITED
81	U51109WB1996PTC078917	TERAPANTH TRADELINK PVT LTD
82	U63040WB2010PTC152608	KUNJA MULTI TOUR & TRAVELS PRIVATE LIMITED
83	U19200WB2010PLC152753	SANKALP SHOE PRODUCTION LIMITED
84	U93000WB2010PTC152912	KRISHNAGAR EDUCATION PRIVATE LIMITED
85	U51390WB2010PLC153067	PABITRA MARKETING AND SERVICES LIMITED
86	U45400WB2010PTC153716	REAL EAST CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED
87	U45200WB2010PLC154642	BRIGHT DREAM PROJECTS LIMITED
88	U15490WB2010PTC154904	SHREE BHURAMAL AGRO PRODUCTS PRIVATE LIMITED
89	U51909WB2010PTC154965	SHRADHA MERCHANTILE PRIVATE LIMITED
90	U45400WB2010PLC156381	TENSTAR REAL - AGRO LIMITED
91	U52390WB2010PTC152292	GOLD VIEW VINTRADE PRIVATE LIMITED
92	U52390WB2010PTC152308	HANUMAN DEALERS PRIVATE LIMITED
93	U51909WB2010PTC152427	EKLAVYA TRADEVIN PRIVATE LIMITED

1	2	3
94	U51909WB2010PTC152429	VASUKI MERCHANTILE PRIVATE LIMITED
95	U74999WB2010PLC152752	SAATHI FINANCIAL CONSULTANTS LIMITED
96	U74999WB2010PTC152790	GOLDEN FLOWER CONSULTANCY PRIVATE LIMITED
97	U31100WB2010PTC153006	KAIZEN PROCESS EQUIPMENTS PRIVATE LIMITED
98	U74999WB2010PTC153283	HANUMANT COMMODITIES PRIVATE LIMITED
99	U74999WB2010PTC153424	NEW KIRAN TECH AGENCY PRIVATE LIMITED
100	U51909WB2010PTC154014	GODWIN TRADELINK PRIVATE LIMITED
101	U23101WB2010PTC154019	R K BIODIESEL PRIVATE LIMITED
102	U74999WB2010PTC154066	GREENLAND COMMERCIAL PRIVATE LIMITED
103	U72900WB2010PTC154133	RAINBOW ONLINE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
104	U01403WB2010PLC154172	LOKNATH AGRO LIMITED
105	U45200WB2010PLC154303	GREEN HEAVEN PROJECT LIMITED
106	U01403WB2010PLC154317	MAK GLOBAL AGRO INFRASTRUCTURE LIMITED
107	U27100WB2010PTC154676	VINDYAVASINI CASTING PRIVATE LIMITED
108	U51909WB2010PTC155378	EKTA PARIWAR MARKETING PRIVATE LIMITED
109	U70109WB2010PLC155532	SURAHA INFRA-REALTY (INDIA) LIMITED
110	U25203WB2010PTC155629	JAISWAL AQUA PLAST PRIVATE LIMITED

PRANAY CHATURVEDI
Asstt. Registrar of Companies
West Bengal

In the matter of the Limited Liability Partnership Act, 2008 and of the following LLPs

Kolkata, the 24th July 2014

No. ROC/WB/LLP-75/2014—Notice is hereby given pursuant to under section 75 of the Limited Liability Partnership Act, 2008 read with Rule 37(3) of the LLP Rule, 2009 that the names of the following 1 LLP have on this day been struck off from the Register and the LLPs are dissolved :—

Sl. No.	LLPIN	Name of the LLP
1	AAB-1717	INNOVATIVE FLEXIBLE TRIP LLP

PRANAY CHATURVEDI
Asstt. Registrar of Companies
West Bengal

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद
में मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2014
PRINTED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS,
N.I.T. FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2014

www.dop.nic.in